

1. If $6/7^{\text{th}}$ of $8/5^{\text{th}}$ of a number is 192, then $3/4^{\text{th}}$ of the number is _____
 यदि किसी संख्या के $8/5^{\text{वां}}$ का $6/7^{\text{वां}}$ भाग 192 है, तो संख्या का $3/4^{\text{वां}}$ भाग _____ है।
 ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ $8/5^{\text{ਵੇਂ}}$ ਦਾ $6/7^{\text{ਵਾਂ}}$ 192 ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ $3/4^{\text{ਵਾਂ}}$ _____ ਹੈ।

(a) 105 (b) 77 (c) 80 (d) 36

2. "City Of Dead" - a UNESCO World Heritage Site is situated in _____

(a) Egypt (b) Germany (c) Pakistan (d) Burma

"City Of Dead" - एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल _____ में स्थित है।

(a) मिस्र (b) जर्मनी (c) पाकिस्तान (d) बर्मा

"City Of Dead" - ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ _____ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

(a) ਮਿਸਰ (b) ਜਰਮਨੀ (c) ਪਾਕਿਸਤਾਨ (d) ਬਰਮਾ

3. Sheela takes four times of the time to row a given distance against the stream as to row the same distance along the stream. Ratio of the speed of the boat(in still water) and stream is :

शीला को एक नाव द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रवाह की तुलना में धारा के विपरीत प्रवाह में चार गुना अधिक समय लगता है। नाव की गति (स्थिर पानी में) और धारा की गति का अनुपात क्या होगा ?

ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਤੀ ਚਲਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸਤੀ ਚਲਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਤੀ ਦੀ ਗਤੀ (ਸਥਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ ?

(a) 4 : 1 (b) 1 : 4 (c) 3 : 5 (d) 5 : 3

4. A shephard had 17 sheeps. All but nine died. How many was he left with ?

एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थीं। नौ को छोड़कर सभी की मौत हो गई। उसके पास कितनी भेड़ें शेष बची ?

ਇੱਕ ਆਜ਼ੜੀ ਕੋਲ 17 ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਨੌਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ ?

(a) 0 (b) 8 (c) 9 (d) 17

5. A motorboat goes 24 km in 2 hours along the stream and 10 km in 1 hour against the stream. The speed of the motorboat in kilometers per hour is :

एक मोटरबोट धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 किमी और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10 किमी चलती है। मोटरबोट की गति किलोमीटर प्रति घंटे _____ है।

ਇੱਕ ਮੋਟਰਬੋਟ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਬੋਟ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(a) 14 (b) 10 (c) 11 (d) 12

6. Which is the next term in the series 1,1,2,3,5,8,13?
 श्रृंखला 1,1,2,3,5,8,13 में अगला पद कौन सा होगा ?
 लड़ी 1,1,2,3,5,8,13 का अगला नंबर किरड़ा है ?

- (a) 44
 (b) 34
 (c) 21

7. The number of zeros at the end of the product will be :
 गुणफल के अंत में शून्य की संख्या होगी :
 गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी :
 गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी :

- $12 \times 18 \times 15 \times 40 \times 25 \times 16 \times 55 \times 105$
 (a) 10
 (b) 9
 (c) 8

8. If in a list of all the alphabets, the alphabets at positions of multiples of five are replaced by digit 1 and the alphabets at positions of multiples of seven are replaced by digit 2. How many alphabets are left now ?
 यदि अंग्रेजी वर्णमाला की एक सूची में, पाँच के गुणकों के स्थान पर वर्णों को अंक '1' से प्रतिस्थापित किया जाता है और सात के गुणकों के स्थान पर वर्णों को अंक '2' से प्रतिस्थापित किया जाता है तो अंग्रेजी के कितने वर्ण शेष बचते हैं ?

- नेकर अंगरेजी वरठमाला दी ईक सूची विस, पंस दे गुणन दे सभान दे अंधरां नुं अंक '1' नाल बचलिया जांदा है अउ मँउ दे गुणन दे सभान दे अंधरां नुं अंक '2' नाल बचल दिँता जांदा है। उां गुणन किंने अंगरेजी दे अंधर बचे हन :
 (a) 15
 (b) 17
 (c) 18
 (d) 21

9. Which of the following slogans was given by Netaji Subhash Chandra Bose ?
 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया था ?

- (a) Give me blood, I shall give you freedom
 (b) Freedom is my birthright and I shall have it
 (c) Defeat and failure are sometimes necessary steps of victory
 (d) It's a fight for freedom, freedom from past for coming future

- (a) तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।
 (b) स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
 (c) पराजय और असफलता कभी-कभी विजय के आवश्यक कदम होते हैं।
 (d) यह आज़ादी की लड़ाई है, आने वाले भविष्य के लिए अतीत से आज़ादी।

- नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने हेठ लिखिया किरड़ा नाअरा दिँता सी?
 (a) तुमो मेनुं धुन दिदि, मैं तुगनुं आजादी देवांगा।
 (b) आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है अउ मैं इसे लेकर रहंगा।
 (c) हार अउ असफलता कधी वार सिँउ दे ज़रूरी कदम हुंदे हन।
 (d) हार अउ असफलता कधी वार सिँउ दे ज़रूरी कदम हुंदे हन।

Handwritten calculations for questions 6, 7, and 8. For question 6, the next term is 21. For question 7, the number of zeros is 8. For question 8, the number of alphabets left is 18.

10. Which country launched the ChatGPT rival 'GigaChat- AI chatbot' ?

(a) Russia

(b) China

(c) Iran

(d) North Korea

किस देश ने ChatGPT प्रतिद्वंदी 'GigaChat- AI chatbot' लॉन्च किया है ?

(a) रूस

(b) चीन

(c) ईरान

(d) उत्तरी कोरिया

किस देश ने ChatGPT विरोधी 'GigaChat- AI chatbot' लॉन्च किया ?

(a) रूस

(b) चीन

(c) ईरान

(d) उत्तरी कोरिया

11. On 23rd Jan, 2005 it was Sunday. What was the day of the week on 23rd Jan, 2004 ?

(a) Tuesday

(b) Wednesday

(c) Friday

(d) Sunday

23 जनवरी 2005 को रविवार था, 23 जनवरी, 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था ?

(a) मंगलवार

(b) बुधवार

(c) शुक्रवार

(d) रविवार

23 जनवरी 2005 को शनिवार था। 23 जनवरी, 2004 को कौन सा दिन था ?

(a) मंगलवार

(b) बुधवार

(c) शुक्रवार

(d) शनिवार

12. In a certain code, 'GAME' is written as 'HZND'. How is 'RAVI' coded in this code ?

एक निश्चित कूट भाषा में, 'GAME' को 'HZND' के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में 'RAVI' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

GAME
7 1 13 5

HZND
8 26 14 5

RAVI SZWH

इसको ध्यान देते हुए, 'GAME' को 'HZND' लिखा जाता है। इस कोड में 'RAVI' को कैसे कोड किया जाएगा ?

(a) VIAR

(b) SBWJ

(c) SZWJ

(d) SZWH

13. In June 2023, which of the following state governments launched Asia's largest, ambitious and historic cluster development scheme ?

(a) Rajasthan

(b) Bihar

(c) Gujarat

(d) Maharashtra

जून 2023 में, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी, महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की ?

(a) राजस्थान

(b) बिहार

(c) गुजरात

(d) महाराष्ट्र

जून 2023 में, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी, महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की ?

(a) राजस्थान

(b) बिहार

(c) गुजरात

(d) महाराष्ट्र

14. Where did India last win Olympic Hockey Gold Medal ?

- (a) Helsinki (b) Moscow (c) Tokyo

(d) Melbourne

भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था ?

- (a) हेल्सिंकी (b) मॉस्को (c) टोक्यो

(d) मेलबर्न

भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी गोल्ड मैडल किसे जिताया था ?

- (a) हेलसिंकी (b) मास्को (c) टोकियो

(d) मेलबोर्न

15. India won the first cricket world cup on _____.

- (a) 25th June 1983 (b) 25th July 1983
(c) 22nd June 1983 (d) 25th June 1979

भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप _____ में जीता था।

- (a) 25 जून 1983 (b) 25 जुलाई 1983
(c) 22 जून 1983 (d) 25 जून 1979

भारत ने _____ नੂੰ पहिला क्रिकेट विश्व कप जिताया था।

- (a) 25 जून 1983 (b) 25 जुलाई 1983
(c) 22 जून 1983 (d) 25 जून 1979

16. The perimeter of a square is equal to the perimeter of a rectangle. The perimeter of the square is 40 m. If its breadth is two-thirds of its length, then what is the area (in m²) of the rectangle ?

एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर होता है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की दो-तिहाई है, तो आयत का क्षेत्रफल (m²) क्या है ?

एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर होता है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की दो-तिहाई है, तो आयत का क्षेत्रफल (m²) क्या है ?

- (a) 100 (b) 96 (c) 84 (d) 121

17. 'Kargil Vijay Diwas' is celebrated on which date in India ?

- (a) July 24 (b) July 26 (c) August 01 (d) August 03

भारत में "कारगिल विजय दिवस" किस तारीख को मनाया जाता है ?

- (a) 24 जुलाई (b) 26 जुलाई (c) 01 अगस्त (d) 03 अगस्त

'कारगिल विजय दिवस' भारत में किस तारीख को मनाया जाता है ?

- (a) 24 जुलाई (b) 26 जुलाई (c) 01 अगस्त (d) 03 अगस्त

18. After best matching, find what is in place of "?" mark.

Coins : Mint :: Bricks : ?

(a) Foundry

(b) Furnace

(c) Kiln

(d) Cementry

सर्वोत्तम मिलान के बाद, ज्ञात कीजिए कि ? के स्थान पर क्या है ?

सिक्के : टकसाल :: ईंटें : ?

(a) फाउंड्री

(b) भट्टी

(c) भट्टा

(d) कब्रिस्तान

सब से वही मिलान से घाबर, लंबे कि ? दी घां ते की है ?

सिक्के : टकसाल :: ईंटें : ?

(a) फाउंडरी

(b) भूँठी

(c) भूँठा

(d) सीमेंटरी

19. The sum of first five prime numbers is :

पहली पाँच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है ?

पहिलीआं पंज प्रुमूँध संखिआवांं दा नुंइ है :

(a) 11

(b) 18

(c) 26

(d) 28

$1+3+5+7+11$

$1+3+5+7+11$

20. Statement :

The government has increased taxes on cigarettes to reduce smoking rates.

Assumptions :

I. Increasing taxes is an effective way to reduce smoking rates.

II. People will stop smoking altogether due to increased taxes.

(a) Only assumption I is implicit

(b) Only assumption II is implicit

(c) Either I or II is implicit

(d) Neither I nor II is implicit

कथन : सरकार ने धूम्रपान की दर को कम करने के लिए सिगरेट पर करों में वृद्धि की है।

मान्यताएँ : I. धूम्रपान की दर को कम करने के लिए करों में वृद्धि एक प्रभावी तरीका है।

II. करों में वृद्धि होने से लोग पूरी तरह से धूम्रपान करना बंद कर देंगे।

(a) केवल मान्यता I अंतर्निहित है।

(b) केवल मान्यता II अंतर्निहित है।

(c) या तो मान्यता I या मान्यता II अंतर्निहित है।

(d) न तो मान्यता I न ही मान्यता II अंतर्निहित है।

बिधान : "सरकार ने सिगरेट नोमी दीआंं दरांं नुं ँटाउिण लई सिगरट 'ते टैकस वषा दिँता है"।

षारनावांं : I. टैकस वषाउिण सिगरट नोमी दीआंं दरांं नुं ँटाउिण दा इँक प्रुषावमाली उरीका है।

II. टैकस वषण नाल लैक सिगरट नोमी बिलकुल बंद कर देणगे।

(a) सिरइ षारना I निमूचिउ है

(b) सिरइ षारना II निमूचिउ है

(c) नांं तांं I नांं II निमूचिउ है

(d) नांं तांं I अते नांं ही II निमूचिउ है

21. In the following question, find out the alternative which will replace the question mark.
Flow : River :: Stagnant : ?

- (a) Pond (b) Rain (c) Stream (d) Canal

नीचे दिए गए प्रश्न में से उस विकल्प का पता लगाएँ जो प्रश्न चिह्न के स्थान पर आएगा।

प्रवाह : नदी :: ठहराव : ?

- (a) तालाब (b) वर्षा (c) धारा (d) नहर

हेठां दिँते पूसून विँचें, उिग विक्लप लँडे जे पूसून सिँनु दी घां लदेगा

ਵਹਾਅ : ਨਦੀ :: ਖੜੋਤ : ?

- (a) ਛੱਪੜ (b) ਵਰਖਾ (c) ਧਾਰ (d) ਨਹਿਰ

22. 5 years ago, the age of a man was 7 times the age of his son. The age of the man will be 3 times the age of his son in five years from now. How old is the man now ?

- (a) 30 years (b) 40 years (c) 50 years (d) 60 years

5 वर्ष पहले, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, अब से पाँच वर्षों बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब उस आदमी की आयु कितनी है ?

- (a) 30 वर्ष (b) 40 वर्ष (c) 50 वर्ष (d) 60 वर्ष

5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

- (a) 30 ਸਾਲ (b) 40 ਸਾਲ (c) 50 ਸਾਲ (d) 60 ਸਾਲ

23. If 22% of $x = 30\%$ of y , then $y : x$ is equal to :

यदि x का 22% = y का 30%, तो $y : x$ बराबर है :

ਜੇਕਰ x ਦਾ 22% = y ਦਾ 30%, ਤਾਂ $y : x$ ਬਰਾਬਰ ਹੈ :

- (a) 15 : 11 (b) 15 : 14 (c) 17 : 16 (d) 11 : 15

24. Three numbers are in the ratio 2 : 3 : 4. If the sum of their squares is 1856, then the numbers are :

तीन संख्याएँ 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है, तो संख्याएँ _____ हैं।

ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 2 : 3 : 4 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1856 ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ _____ ਹਨ।

- (a) 8, 12, 16 (b) 16, 24, 32 (c) 12, 18, 24 (d) 14, 18, 19

25. In a class $\frac{3}{4}$ of the students are girls and rest are boys. If $\frac{2}{3}$ of the girls and $\frac{1}{2}$ of the boys are absent, what part of the total number of students are present?

एक कक्षा में $\frac{3}{4}$ लड़कियाँ हैं और बाकी लड़के हैं। यदि $\frac{2}{3}$ लड़कियाँ और $\frac{1}{2}$ लड़के अनुपस्थित हैं तो छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है ?
 ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ $\frac{3}{4}$ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ $\frac{2}{3}$ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ $\frac{1}{2}$ ਲੜਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{8}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{4}{3}$

26. Three of the following four are same in a certain way and hence form a group. Find out the one which does not belong to that group.

- (a) Violet (b) Green (c) Black (d) Red

निम्नलिखित चार में से तीन एक विशेष तरीके से समान हैं और इस कारण से एक समूह बनाते हैं। उस एक का पता लगाएँ जो उस समूह से संबंधित नहीं है।

- (a) बैंगनी (b) हरा (c) काला (d) लाल

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- (a) ਬੈਂਗਣੀ (b) ਹਰਾ (c) ਕਾਲਾ (d) ਲਾਲ

27. The value of x for which the expressions $12 - 6x$ and $4x + 2$ becomes equal is :

x का मान जिसके लिए अभिव्यक्ति $12 - 6x$ और $4x + 2$ बराबर हो जाते हैं :

x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ $12 - 6x$ ਅਤੇ $4x + 2$ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈ :

- (a) 0 (b) 2 (c) 1 (d) 4

28. Who was the last Governor General of India ?

- (a) Warren Hastings (b) C Rajagopalachari
 (c) Lord Cornwallis (d) Lord Mountbatten

भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे ?

- (a) वॉरेन हेस्टिंग्स (b) सी राजगोपालाचारी
 (c) लॉर्ड कॉर्नवालिस (d) लॉर्ड माउंटबेटन

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ?

- (a) ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ (b) ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ
 (c) ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ (d) ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ

29. The difference of two numbers is 1365. On dividing the larger number by the smaller, we get 6 as quotient and the 15 as remainder. What is the smaller number?
 दो संख्याओं का अन्तर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है?
 ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 1365 ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ 6 ਭਾਗ ਅਤੇ 15 ਬਾਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?
- (a) 240 (b) 270 (c) 295 (d) 360

30. A number first increases by 10% and then decreases by 15%. The percentage decrease as a whole is:
 एक संख्या पहले 10% की दर से बढ़ती है और फिर 15% की दर से कम हो जाती है। समग्र रूप से (कुल) प्रतिशत की कमी क्या है?
 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 15% ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ।
- (a) 6.5% (b) 5.5% (c) 4.5% (d) 3.0%

31. Where is the largest skywalk bridge in India?
 भारत में सबसे बड़ा स्काईवॉक पुल कहाँ है?
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਈਵਾਕ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
- (a) Tamilnadu (b) Kerala (c) Maharashtra (d) None of the above
 (a) तामिलनाडु (b) केरल (c) महाराष्ट्र (d) इनमें से कोई नहीं।
 (a) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (b) ਕੇਰਲ (c) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

32. Where was the Advantage Healthcare India (AHCI) 2023 conference held?
 एडवॉन्टेज हेल्थ केयर इंडिया (AHCI) 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡੀਆ (AHCI) 2023 ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
- (a) Mumbai (b) Kochi (c) Hyderabad (d) New Delhi
 (a) मुंबई (b) कोची (c) हैदराबाद (d) नई दिल्ली
 (a) ਮੁੰਬਈ (b) ਕੋਚੀ (c) ਹੈਦਰਾਬਾਦ (d) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

33. During the Mahabharata War, Shakuni was killed by _____.
 महाभारत युद्ध के दौरान शकुनी _____ द्वारा मारा गया था।
 ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕੁਨੀ _____ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- (a) Bheem (b) Arjun (c) Nakul (d) Sahadev
 (a) भीम (b) अर्जुन (c) नकुल (d) सहदेव
 (a) ਭੀਮ (b) ਅਰਜੁਨ (c) ਨਕੁਲ (d) ਸਹਿਦੇਵ

34. Highest Civilian award of India is _____.

- (a) Ashok Chakra
(b) Padma Vibhushan
(c) Bharat Ratna
(d) Padma Bhushan

भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार _____ है।

- (a) अशोक चक्र
(b) पद्म विभूषण
(c) भारत रत्न
(d) पद्म भूषण

भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार _____ है।

- (a) अशोक चक्र
(b) पद्म विभूषण
(c) भारत रत्न
(d) पद्म भूषण

35. A woman introduces a man as son of the brother of her father. How is the man related to the woman ?

- (a) Uncle
(b) Cousin
(c) Grandson
(d) Nephew

एक महिला एक पुरुष का परिचय अपने पिता के भाई के बेटे के रूप में करवाती है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है ?

- (a) चाचा
(b) चचेरा भाई
(c) पोता
(d) भतीजा

ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ?

- (a) ਚਾਚਾ
(b) ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ
(c) ਪੋਤਾ
(d) ਭਤੀਜਾ

36. In which year British had their victory in Battle of Plassey ?

प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय किस वर्ष में हुई थी ?

ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ?

- (a) 1690
(b) 1748
(c) 1754
(d) 1757

37. In a certain code SHIMLA is written as RGHLKZ, then how will PATNA be coded ?

एक विशेष कोड में SHIMLA को RGHLKZ लिखा गया है, तो PATNA को कोड में कैसे लिखा जाएगा ?

ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ SHIMLA ਨੂੰ RGHLKZ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ PATNA ਨੂੰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

- (a) OZMSO
(b) OZSMZ
(c) ZOMSO
(d) OZMSZ

38. There are six persons Ashwin, Kiran, Komal, Dipen, Esha and Mittal. Komal is the sister of Mittal. Kiran is the brother of Esha's husband. Dipen is the father of Ashwin and grandfather of Mittal. There are two fathers, three brothers and a mother in the group. Who is the mother ?

- (a) Ashwin (b) Kiran (c) Komal (d) Esha

छह व्यक्ति अश्विन, किरन, कोमल, दीपेन, ईशा और मित्रल हैं। कोमल, मित्रल की बहन है। किरन, ईशा के पति का भाई है। दीपेन, अश्विन के पिता और मित्रल के दादा हैं। समूह में दो पिता, तीन भाई और एक माँ है। निम्न में से माँ कौन है ?

- (a) अश्विन (b) किरन (c) कोमल (d) ईशा

ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਕਿਰਨ, ਕੋਮਲ, ਦੀਪੇਨ, ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਹਨ। ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਦੀਪੇਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿਤਾ, ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ?

- (a) ਅਸ਼ਵਿਨ (b) ਕਿਰਨ (c) ਕੋਮਲ (d) ਈਸ਼ਾ

39. During his recent US trip, Prime Minister Modi was gifted a book of poems by the Bidens. This book is the work of famous poet _____.

- (a) Robert Frost (b) T.S. Eliot (c) Emily Dickinson (d) E.E. Cummings

अपनी हाल ही की अमेरिकी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेंस द्वारा कविताओं की एक पुस्तक उपहार में दी गई थी। यह पुस्तक प्रसिद्ध कवि _____ की कृति है।

- (a) रॉबर्ट फ्रॉस्ट (b) टी.एस. इलियट (c) एमिली डिकिंसन (d) ई.ई. कमिंग्स

ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ _____ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

- (a) ਰਾਬਰਟ ਫਰੋਸਟ (b) ਟੀ.ਐਸ. ਐਲੀਅਟ (c) ਐਮਿਲੀ ਡਿਕਨਸਨ (d) ਈ ਈ ਕਮਿੰਗਜ਼

40. The ratio of radii of a cylinder to a cone is $1 : 2$. If their heights are equal, then the ratio of their volumes is:

एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात $1 : 2$ है। यदि उनकी ऊँचाई बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात है:
 ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ $1 : 2$ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ:

- (a) $1 : 3$ (b) $2 : 3$ (c) $3 : 4$ (d) $4 : 1$

41. The largest natural number by which the product of three consecutive even natural numbers always divisible, is:

सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिससे तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है, क

ਹੈ ?
 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
 ਇਹ ਹੈ:

- (a) 16 (b) 24 (c) 48 (d) 96

46. Which two signs should be interchanged to make the given equation correct?
 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए?
 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

$$25 - 5 * 50/10 + 35 = 155$$

(a) * and -

(b) * and +

(c) + and -

(d) * and /

47. Which one of the following given responses would be a meaningful order of the following words?

1. Point 2. Triangle 3. Square 4. Angle 5. Line

निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा ?

1. बिंदु 2. त्रिभुज 3. चौकोर 4. कोण 5. रेखा

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇਗਾ?

1. ਬਿੰਦੂ 2. ਤਿਕੋਣ 3. ਵਰਗ 4. ਕੋਣ 5. ਲਾਈਨ

(a) 4, 1, 5, 2, 3

(b) 3, 2, 1, 5, 4

(c) 2, 1, 4, 5, 3

(d) 1, 5, 4, 2, 3

48. If Meera is the sister of Jasbir, Jasbir is the wife of Parmjit and Parmjit is the son of Amarjit, how is Jasbir related to Amarjit?

(a) Daughter-in-law

(b) Daughter

(c) Wife

(d) Mother

ਯਦਿ ਮੀਰਾ ਜਸਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਸਬੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ?

(a) ਭੈਣ

(b) ਭੈਣੀ

(c) ਪਤਨੀ

(d) ਮਾਂ

ਜੇਕਰ ਮੀਰਾ ਜਸਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਸਬੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ?

(a) ਠੂੰਹ

(b) ਧੀ

(c) ਪਤਨੀ

(d) ਮਾਂ

49. The value of $8 - [8 - (5 + 8) - \{8 - (8 - 5 + 8)\} + 10]$ is _____.

$8 - [8 - (5 + 8) - \{8 - (8 - 5 + 8)\} + 10]$ ਦਾ ਮਾਨ _____ ।

$8 - [8 - (5 + 8) - \{8 - (8 - 5 + 8)\} + 10]$ ਦਾ ਮੁੱਲ _____ ।

(a) 5

(b) 20

(c) 0

(d) 10

50. Which company has signed a 3 billion Euro contract to supply and service freight trains in India ?

- (a) Robert Bosch
(c) Siemens

- (b) Schneider Electric
(d) General Electric

- किस कंपनी ने भारत में मालगाड़ियों की आपूर्ति और सेवा के लिए 3 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है ?
(a) रॉबर्ट बोश
(c) सीमेंस

- (b) स्नाइडर इलैक्ट्रिक
(d) जनरल इलैक्ट्रिक

किस कंपनी ने भारत में माल गाड़ियों की आपूर्ति और सेवा के लिए 3 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है ?

- (a) राबर्ट बोस
(c) सीमेंस

- (b) स्नाइडर इलैक्ट्रिक
(d) जनरल इलैक्ट्रिक

51. Which one of the following is not a prime number ?

- निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है ?
उस लिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है ?

(a) 31

(b) 61

(c) 71

(d) 91

52. A Tiebreaker is an additional contest carried out to establish a winner among tied contestants. Choose one situation from the options below that best represents a Tiebreaker.

- (a) At halftime, the score is tied at 2-2 in a football match.
(b) Serena and Maria have each secured 1 set in the game.
(c) The umpire tosses a coin to decide which team will have to bat first.
(d) RCB and KKR each finished at 140 all out.

टाइब्रेकर एक अतिरिक्त प्रतियोगिता है जो प्रतियोगिता में बराबरी के प्रतिभागियों में से एक विजेता चुनने के लिए आयोजित की जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक स्थिति का चुनाव करें जो टाइब्रेकर का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है।

- (a) फुटबॉल मैच में मध्यांतर के समय स्कोर 2-2 से बराबर होता है।
(b) सेरेना और मारिया ने खेल में 1 सेट प्राप्त किया है।
(c) अंपायर यह निर्णय लेने के लिए एक सिक्का उछालता है कि किस टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी ?
(d) आर सी बी और के के आर 140 पर ऑलआउट हो गए।

टाइब्रेकर एक अतिरिक्त प्रतियोगिता है जो प्रतियोगिता में बराबरी के प्रतिभागियों में से एक विजेता चुनने के लिए आयोजित की जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक स्थिति का चुनाव करें जो टाइब्रेकर का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है।

- (a) अंपायर यह निर्णय लेने के लिए एक सिक्का उछालता है कि किस टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी ?
(b) आर सी बी और के के आर 140 पर ऑलआउट हो गए।
(c) अंपायर यह निर्णय लेने के लिए एक सिक्का उछालता है कि किस टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी ?
(d) आर सी बी और के के आर 140 पर ऑलआउट हो गए।

53. Who is the Prime Minister of Egypt ?

- (a) Mr Mustafa Madbouly (b) Mr Abdel Fattah el-Sisi
(c) Mr Hosni Mubarak (d) Mr Sharif Ismail

मिस्र के प्रधानमंत्री कौन हैं ?

- (a) श्री मुस्तफा मदबौली (b) श्री अब्देल फतह अल-सिसी
(c) श्री होसनी मुबारक (d) श्री शरीफ इस्माइल

मिस्र का प्रधान मंत्री कौन है ?

- (a) श्री मुस्तफा मदबौली (b) श्री अब्देल फतह अल-सिसी
(c) श्री होसनी मुबारक (d) श्री शरीफ इस्माइल

54. Which is the first e-commerce company to set up solar farms in India ?

- (a) Walmart (b) Amazon (c) Flipkart (d) Ebay

भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है ?

- (a) वॉलमार्ट (b) अमेज़ॉन (c) फ्लिपकार्ट (d) ईबे

भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है ?

- (a) वालमार्ट (b) अमेज़ॉन (c) फ्लिपकार्ट (d) ईबे

55. Rohit tells his son, "I was three times of your present age when you were born." If Rohit's present age is 48 years, how old was the boy 4 years ago ?

- (a) 24 years (b) 8 years (c) 12 years (d) 16 years

रोहित अपने बेटे से कहता है, "जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का तीन गुना था।" यदि रोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी थी ?

- (a) 24 साल (b) 8 साल (c) 12 साल (d) 16 साल

रोहित आपसे बेटे से कहता है, "जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का तीन गुना था।" यदि रोहित की वर्तमान आयु 48 साल है, तो 4 साल पहले लड़के की उम्र कितनी थी ?

- (a) 24 साल (b) 8 साल (c) 12 साल (d) 16 साल

56. KFON is a project initiated by the _____ government to provide free Internet connections to 20 lakh below-poverty-line families and connect 30,000 government institutions in state.

- (a) Kerala (b) Karnataka (c) Nagaland (d) Odisha

KFON एक परियोजना है जो _____ सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने और राज्य में 30,000 सरकारी संस्थानों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है।

- (a) केरल (b) कर्नाटक (c) नागालैंड (d) उड़ीसा

KFON एक प्रोजेक्ट है जो _____ सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने और राज्य में 30,000 सरकारी संस्थानों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है।

- (a) केरल (b) कर्नाटक (c) नागालैंड (d) उड़ीसा

57. A man drives to his office at 60 km/hr and returns home along the same route at 30 km/hr, then his average speed is :

- (a) 40 km/hr
(b) 45 km/hr
(c) 50 km/hr
(d) None of these

एक आदमी 60 किमी प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और उसी रास्ते से 30 किमी प्रति घंटे की गति से घर लौटता है, उसकी औसत गति है :

- (a) 40 किमी प्रति घंटा
(b) 45 किमी प्रति घंटा
(c) 50 किमी प्रति घंटा
(d) इनमें से कोई नहीं

ਇੱਕ ਆਦਮੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਹੈ :

- (a) 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
(b) 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
(c) 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

58. Rice is which type of crop ?

- (a) Kharif
(b) Rabi
(c) Zaid
(d) None of above

चावल किस प्रकार की फसल है ?

- (a) खरीफ
(b) रबी
(c) ज़ायद
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

ਝੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ?

- (a) ਖਰੀਫ
(b) ਰਬੀ
(c) ਜ਼ੈਦ
(d) ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

59. The ratio of width of our National flag to its length is _____.

हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है :

ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ :

- (a) 3 : 5
(b) 2 : 3
(c) 2 : 4
(d) 3 : 4

60. Select the one which is different from the other three.

- (a) Bokaro
(b) Jamshedpur
(c) Bhillai
(d) Agra

अन्य तीन से भिन्न एक विकल्प का चयन करें।

- (a) बोकारो
(b) जमशेदपुर
(c) भिलाई
(d) आगरा

ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

- (a) ਬੋਕਾਰੋ
(b) ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ
(c) ਭਿਲਾਈ
(d) ਆਗਰਾ

61. A cantonment had arrangements for 210 soldiers for 50 days. After 30 days, 140 soldiers left the cantonment for battle. Then after how much time the food will be consumed completely if the consumption of food remains the same for the remaining soldiers ?

- (a) 60 days (b) 47 days (c) 12 days (d) None of the above

एक छावनी में 50 दिनों के लिए 210 सैनिकों के भोजन की व्यवस्था थी। 30 दिनों के बाद, 140 सैनिकों ने युद्ध में जाने के लिए छावनी छोड़ दी। यदि शेष सैनिकों के भोजन की खपत समान रहती है तो कितने समय के बाद भोजन पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा ?

- (a) 60 दिन (b) 47 दिन (c) 12 दिन (d) इनमें से कोई नहीं

ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 210 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 140 ਸਿਪਾਹੀ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰ ਕਰਕੇ, ਛਾਉਣੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?

- (a) 60 ਦਿਨ (b) 47 ਦਿਨ (c) 12 ਦਿਨ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

62. Ram, Mohit and Amit can complete a task in 12 days, 10 days and 15 days, respectively. In how many days can Ram, Mohit and Amit together complete the same task ?

राम, मोहित और अमित एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम, मोहित और अमित मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ?

ਰਾਮ, ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ, ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

- (a) 8 (b) 4 (c) 2 (d) 6

63. Four defensive football players are chasing the opposing wide receiver, who has the ball. Calvin is directly behind the ball carrier. Jenkins and Burton are side by side behind Calvin. Zeller is behind Jenkins and Burton. Calvin tries for the tackle but misses and falls. Burton trips. Which defensive player tackles the receiver ?

- (a) Burton (b) Zeller (c) Jenkins (d) Calvin

चार रक्षात्मक फुटबॉल खिलाड़ी विरोधी वाइड रिसीवर का पीछा कर रहे हैं जिसके पास गेंद है। केल्विन सीधे गेंद वाहक के पीछे है। जेनकिंस और बर्टन अगल-बगल केल्विन के पीछे हैं। ज़ेलर, जेनकिंस और बर्टन के पीछे है। केल्विन निपटने की कोशिश तो करता है परन्तु चूक जाता है और गिर जाता है। बर्टन भी गिर जाता है। कौन सा रक्षात्मक खिलाड़ी रिसीवर से निपटता है ?

- (a) बर्टन (b) ज़ेलर (c) जेनकिंस (d) केल्विन

ਚਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਈਡ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੇਂਦ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇਨਕਿੰਸ ਅਤੇ ਬਰਟਨ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜ਼ੇਲਰ ਜੇਨਕਿੰਸ ਅਤੇ ਬਰਟਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਨਜ਼ਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਟਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿੱਠਦਾ ਹੈ ?

- (a) ਬਰਟਨ (b) ਜ਼ੇਲਰ (c) ਜੇਨਕਿੰਸ (d) ਕੈਲਵਿਨ

64. Who won the Malaysia Masters 2023 badminton title ?
(a) Viktor Axelsen
(b) H S Prannoy
(c) Weng Hong Yang
(d) Prakash Padukone

मलेशिया मास्टर्स 2023 का बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है ?
(a) विकटर एक्सलसेन
(b) एच एस प्रणय
(c) वेंग होंग यांग
(d) प्रकाश पादुकोण

मलेशीया मास्टर्स 2023 बैडमिंटन खिताब किसने जीता ?
(a) विकटर ऐक्सलसन
(b) ऐच एस परणय
(c) वेंग हांग यांग
(d) प्रकाश पादुकोण

65. In which year did India win Cricket World Cup at Indian Soil ?

भारत ने किस वर्ष में भारतीय धरती पर क्रिकेट विश्व कप जीता था ?

भारत ने किस साल भारतीय धरती पर क्रिकेट विश्व कप जीता था ?

(a) 1983
(b) 2003
(c) 2011
(d) 2015

66. The first maritime partnership exercise involving India, France, and the UAE recently began in which body of water ?

(a) Indian Ocean
(b) Gulf of Khambhat
(c) Gulf of Oman
(d) Gulf of Mannar

भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास किस जलस्रोत में आरंभ हुआ था ?

(a) हिन्द महासागर
(b) खंभात की खाड़ी
(c) ओमान की खाड़ी
(d) मन्नार की खाड़ी

भारत, फ्रांस अਤੇ युएई नुं सामल करन वाली पहिली समुद्री भागीदारी अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ था ?

(a) हिंद महासागर
(b) खंभात की खाड़ी
(c) ओमान की खाड़ी
(d) मन्नार की खाड़ी

67. A word is given below. This word is followed by four other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Find the word.
 नीचे एक शब्द दिया गया है। इस शब्द के बाद चार अन्य शब्द आते हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द ज्ञात कीजिये।
 वेहाँ ईँक स़बद दिँता गिआ है। ईस स़बद तें ब़ाअद चार हेर स़बद आउँदे रन, जिनुं दिँरें ईँक नू दिँते स़बद दे अँखरां दी वरतें करके नहीँ ब़नाईआ जा सकदा। स़बद लँडे।

COMPREHENSION

- (a) COMPRISE (b) PENSION (c) ONION (d) PREACH

68. A train of length 350 m crosses a bridge of length 250 m in 20 seconds. What is the speed of the train (in km/h) ?

350 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति (किमी/घंटा में) क्या है ?

350 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी 250 मीटर की लंबाई वाले पुल को 20 सेकंडों में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कि.मी./घंटे में क्या है ?

- (a) 95 (b) 72 (c) 108 (d) 88

69. Name of mother of Maharaja Duleep Singh, the last Maharaja of Sikh Empire, was :

- (a) Mehtab Kaur (b) Jind Kaur (c) Datar Kaur (d) Ratan Kaur

सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा, महाराजा दलीप सिंह की माता का नाम था :

- (a) मेहताब कौर (b) जिंद कौर (c) दातार कौर (d) रतन कौर

ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ :

- (a) ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ (b) ਜਿੰਦ ਕੌਰ (c) ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ (d) ਰਤਨ ਕੌਰ

70. The average of 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 is 15, then the value of x is :

7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है, तो x का मान _____ है।

7, 11, 15, x, 14, 21, 25 ਦੀ औसत 15 ਹੈ, ਫਿਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ _____ ਹੈ।

- (a) 3 (b) 14.5 (c) 12 (d) 13.3

21. Which will be the 10th term in the following series ?

निम्नलिखित श्रृंखला में 10वां पद कौन सा होगा ?

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

357, 363, 369, 375, 381, 387, 393, 399, 405, 411, 417

- (a) 405 (b) 411 (c) 413 (d) 417

72. S. Sobha Singh is famous for _____.

- (a) Paintings (b) Music (c) Poet (d) None of the above

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ _____ ਕੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

- (a) ਪੇਂਟਿੰਗਸ (b) ਸੰਗੀਤ (c) ਕਵਿ (d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸ. ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ _____ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

- (a) ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ (b) ਸੰਗੀਤ (c) ਕਵੀ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

73. Find the missing term in the given series :

ਦੀ ਗਈ ਸ਼ਰ੍ਰੰਖਲਾ ਮੇਂ ਲੁਪਤ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਾਤ ਕੀਜੀਏ :

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭੋ :

15, 22, 31, 42, 55, ?

- (a) 60 (b) 68 (c) 70 (d) 74

74. PGIMER Chandigarh was inaugurated 60 years ago by _____ .
- (a) Pt. Jawahar Lal Nehru (b) Sardar Pratap Singh Kairon
(c) Dr Zakir Hussain (d) Prof P N Chuttani

ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 60 ਸਾਲ ਪਹਲੇ ਕਿਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

- (a) ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇਹਰੂ (b) ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
(c) ਡਾੱ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ (d) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਐਨ ਚੁਟਾਨੀ

PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

- (a) ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (b) ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
(c) ਡਾ: ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ (d) ਪ੍ਰੋ. ਪੀ ਐਨ ਚੁਟਾਨੀ

75. 2 years ago Radha's age was 4 times her son's age. 8 years after the ratio between the ages of Radha and her son becomes 5 : 2. What is Radha's present age ?

2 वर्ष पहले राधा की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद राधा और उसके बेटे की आयु का अनुपात 5 : 2 हो जाता है। राधा की वर्तमान आयु क्या है ?

2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 : 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ?

- (a) 38 (b) 40 (c) 42 (d) 44

76. A shopkeeper sold two mobile phones for Rs 20,000 each. The first one is sold at 10% profit and the other one at 10% loss. Then his % gain or loss in this deal is :

- (a) No profit no loss (b) 1% loss
(c) 1% gain (d) None of these

एक दुकानदार ने दो मोबाइल फोन 20-20 हजार रुपए में बेचे। पहले को 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि पर बेचा। तो इस सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत (%) है :

- (a) न कोई लाभ, न कोई हानि (b) 1% हानि
(c) 1% लाभ (d) इनमें से कोई नहीं

ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ। ਪਹਿਲਾ 10% ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10% ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (%) ਹੈ :

- (a) ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ (b) 1% ਹਾਨੀ
(c) 1% ਲਾਭ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

77. If 'x' means '-', '+' means '/', '-' means 'x', '/' means '+', then $15-2/90+90 \times 100$ is :

- (a) 190 (b) 180 (c) 90 (d) None of these

यदि 'x' का अर्थ '-', '+' का अर्थ '/', '-' का अर्थ 'x', '/' का अर्थ '+' है तो $15-2/90+90 \times 100$ का मान क्या होगा ?

- (a) 190 (b) 180 (c) 90

(d) इनमें से कोई नहीं

जेकर 'x' दा मतलब है '-', '+' दा मतलब '/', '-' दा मतलब है 'x', '/' दा मतलब है '+', तां $15-2/90+90 \times 100$ की कीमत की है ?

- (a) 190 (b) 180 (c) 90

(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

78. When was the construction of previous Parliament Building completed ?

पिछले संसद भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था ?

ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ?

- (a) 1921 (b) 1927 (c) 1947 (d) 1950

79. If A + B means A is the mother of B; A - B means A is the brother of B; A % B means A is the father of B and A x B means A is the sister of B, which of the following shows that P is the maternal uncle of Q ?

यदि A+B का अर्थ है कि A, B की माँ है ; A-B का अर्थ है कि A, B का भाई है ; A%B का अर्थ है कि A, B का पिता है और A x B का अर्थ है कि A, B की बहन है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि P, Q का मामा है ?

ਜੇਕਰ A + B ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ A, B ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ; A - B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ A, B ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ; A % B ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ A, B ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ A x B ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ A, B ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ P, Q ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ?

- (a) $Q - N + M \times P$ (b) $P + S \times N - Q$
(c) $P - M + N \times Q$ (d) $Q - S \% P$

80. A bus covers a 60 km distance in 1 hour 30 minutes, whereas the same distance is covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of the speed of the car to the speed of the bus ?

एक बस 60 किमी की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी एक कार 45 मिनट में तय करती है।

कार की गति का बस की गति से अनुपात क्या है ?
 ਇੱਕ ਬੱਸ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 1 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ ?

$$\frac{60 \text{ km}}{45} = \frac{25}{15}$$

$$\frac{90}{45} = \frac{2}{1}$$

(a) 2:1

(b) 1:5

(c) 3:5

(d) 5:3

81. On which date is International Everest Day 2023 celebrated ?

(a) May 26

(b) May 28

(c) May 27

(d) May 29

अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया ?

(a) 26 मई

(b) 28 मई

(c) 27 मई

(d) 29 मई

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਰੈਸਟ ਦਿਵਸ 2023 ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ?

(a) 26 ਮਈ

(b) 28 ਮਈ

(c) 27 ਮਈ

(d) 29 ਮਈ

82. Lala Lajpat Rai died protesting against which British Act/Commission ?

(a) Rowlatt Act

(b) Simon Commission

(c) Bengal Regulation Act

(d) Hunter Commission

किस ब्रिटिश अधिनियम/आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपतराय की मृत्यु हुई थी ?

(a) रॉलेट एक्ट

(b) साइमन कमिशन

(c) बंगाल रेगुलेशन अधिनियम

(d) हन्टर कमिशन

ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਟ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ?

(a) ਰੋਲਟ ਐਕਟ

(b) ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

(c) ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ

(d) ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

83. Which of the following is not a leap year ?

निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है ?

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਪ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

(a) 800

(b) 1200

(c) 1400

(d) 2000

84. Select the related number from the given alternatives

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰੋ

$N * M : 14 * 13 :: X * Z : ?$ $24 * 26$

- (a) $24 * 23$ (b) $23 * 24$ (c) $24 * 26$ (d) $26 * 23$

85. A number consists of two digits. The digit at the ten's place is two times the digit at the one's place. The number, formed by reversing the digits is 27 less than the original number. Then the original number is :

एक संख्या में दो अंक हैं। दस के स्थान वाला अंक एक के स्थान वाले अंक का दो गुना है। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, मूल संख्या से 27 कम है तो मूल संख्या होगी :

ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ 27 ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ :

- (a) 49 (b) 94 (c) 63 (d) 36

86. If $3x + 2y = 7$ and $4x - y = 24$ then $x - y = ?$

यदि $3x + 2y = 7$ और $4x - y = 24$ तो $x - y = ?$

ਜੇਕਰ $3x + 2y = 7$ ਅਤੇ $4x - y = 24$ ਤਾਂ $x - y = ?$

- (a) 9 (b) 1 (c) -9 (d) -1

$$3x + 2y = 7 \quad 4x - y = 24$$

$$2y + y = 7$$

$$4x - 3x = 24$$

$$24 - 7 =$$

$$2y + y = 7$$

$$4x - 3x = 24$$

$$24 - 7 =$$

87. What is Britain exit from European Union popularly called ?

- (a) NATOExit (b) Brexit (c) EuroExit (d) None of These

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है ?

- (a) नाटोएਕਿਜ਼ਟ (b) ਬ੍ਰੇਕਿਜ਼ਟ (c) ਯੂਰੋਏਕਿਜ਼ਟ (d) इनमें से कोई नहीं।

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

- (a) ਨੈਟੋਐਗਜ਼ਿਟ (b) ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ (c) ਯੂਰੋਐਗਜ਼ਿਟ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

88.

A bus starts from Chandigarh. The number of men are thrice the number of women in the bus. At Ambala 12 men leave the bus and 16 women enter the bus. Now number of men and women are equal. In the beginning, how many passengers entered the bus?

ਚਛਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ 12 ਆਦਮੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਔਰਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ?

(a) 56

(b) 66

(c) 46

(d) 76

$$A - 12 \times 3 = 36$$

$$M - 16 \times 3 = 48$$

$$\frac{48}{3} = 16$$

$$\frac{100 \times 3}{300} = 12$$

89.

World War I was fought during which of the following periods?

ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਅਵਧਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

(a) 1909-13

(b) 1914-18

(c) 1919-23

(d) 1923-27

90.

The greatest number that divides 38, 45 and 52 leaves remainders 2, 3 and 4 respectively is:

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) None of these

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ 38, 45 ਅਤੇ 52 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਬਚਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) इनमें से कोई नहीं

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ 38, 45 ਅਤੇ 52 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਬਚਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ :

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

91.

Lyrics of 'Ik Kuri Jihda Naam Mohabbat' were written by _____.

(a) Sahir Ludhianvi

(b) Amrita Pritam

(c) Shiv Kumar Batalvi

(d) Jawed Akhtar

ਗੀਤ ' ਇਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਬਬਤ' ਦੇ ਬੋਲ _____ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।

(a) साहिर लुधियानवी

(b) अमृता प्रीतम

(c) शिव कुमार बटालवी

(d) जावेद अख्तर

'ਇਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ' ਦੇ ਬੋਲ _____ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।

(a) साहिर लुधियानवी

(b) अमृता प्रीतम

(c) शिव कुमार बटालवी

(d) जावेद अख्तर

$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \overline{) 38} \\ \underline{36} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 4 \overline{) 45} \\ \underline{44} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 5 \overline{) 38} \\ \underline{35} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 5 \overline{) 45} \\ \underline{45} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \overline{) 42} \\ \underline{42} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \overline{) 36} \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ 6 \overline{) 48} \\ \underline{48} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \overline{) 42} \\ \underline{42} \\ 0 \end{array}$$

92. In the following, out of four words, three are alike and fourth is different. Find out the fourth one.

- (a) Saw (b) Knife (c) Axe (d) Screw-driver

निम्नलिखित में चार शब्दों में से, तीन समान हैं और चौथा शब्द अलग है चौथे शब्द का पता लगाएँ।

- (a) आरा (b) चाकू (c) कुल्हाड़ी (d) पेचकस

निम्नलिखित विंश, चार शब्दों में से, तीन समान हैं और चौथा शब्द अलग है चौथे शब्द का पता लगाएँ।

- (a) आरा (b) चाबू (c) कुहाड़ी (d) पेचकस

93. 30 men working 7 hrs a day can do a work in 18 days. In how many days will 21 men working 9 hrs a day do the same work ?

- (a) 20 days (b) 21 days (c) 18 days (d) 16 days

30 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे ?

- (a) 20 दिन (b) 21 दिन (c) 18 दिन (d) 16 दिन


30 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करके 18 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी एक दिन में 9 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे ?

- (a) 20 दिन (b) 21 दिन (c) 18 दिन (d) 16 दिन

Handwritten calculation:
 $30 - 7 \text{ घंटे} = 210$
 $21 - 9 \text{ घंटे} = 189$
 $\frac{210}{189} = \frac{10}{9}$
 $18 \times \frac{10}{9} = 20$


94. Eight friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a straight line, all facing the North. F is sitting between D and G. B is sitting between H and A. E is third to the left of G, who is sitting at one of the corners. H is third to the left of C. Who is sitting at another corner ?

आठ मित्र A, B, C, D, E, F, G और H एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। F, D और G के बीच में बैठा है। B, H और A के बीच में बैठा है। E, G के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो किसी एक कोने पर बैठा है। H, C के बाएं से तीसरे स्थान पर है। दूसरे कोने पर कौन बैठा है?



अठारह दोस्त A, B, C, D, E, F, G और H एक सीधी लाइन में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। F, D और G के बीच में बैठा है। B, H और A के बीच में बैठा है। E, G के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो किसी एक कोने पर बैठा है। H, C के बाएं से तीसरे स्थान पर है। दूसरे कोने पर कौन बैठा है?

- (a) G (b) H (c) B (d) C



95. What is India's rank in the Gender Gap Report 2023, released by World Economic Forum ?
 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है ?
 वरलड इकनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ ?
- (a) 122 (b) 127 (c) 137 (d) 148

96. On which date is World Milk Day observed ?
 विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
 ਵਿਸ਼ਵ ਦੁੱਧ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- (a) June 04 (b) June 03 (c) June 02 (d) June 01
- (a) 04 जून (b) 03 जून (c) 02 जून (d) 01 जून
- (a) 04 ਜੂਨ (b) 03 ਜੂਨ (c) 02 ਜੂਨ (d) 01 ਜੂਨ

97. Who won the Wimbledon 2022 Men's title ?
 विंबलडन 2022 पुरुष खिताब किसने जीता था ?
 ਵਿੰਬਲਡਨ 2022 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ?
- (a) Novak Djokovic (b) Nicholas Hilmy Kyrgios
 (c) R Nadal (d) C Garin
- (a) नोवाक जोकोविच (b) निकोलस हिल्मी किर्गियोस
 (c) आर नडाल (d) सी गारिन
- (a) ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ (b) ਨਿਕੋਲਸ ਹਿਲਮੀ ਕਿਰਗਿਓਸ
 (c) ਆਰ ਨਡਾਲ (d) ਸੀ ਗੈਰਿਨ

98. Ahlawat moved 20 m to the north, then turned left and covered distance of 34 m. Again he turned left and moved 15 m. Then turned to the right deviating by an angle of 45 degrees from the ongoing direction. To which direction he is travelling ?

- (a) South-west (b) South-East (c) North-west (d) West

अहलावत 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 34 मीटर की दूरी तय करता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर आगे बढ़ता है। फिर वह चल रही दिशा से 45 डिग्री के कोण से विचलित होकर दाईं ओर मुड़ जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है ?

- (a) दक्षिण-पश्चिम (b) दक्षिण-पूर्व (c) उत्तर-पश्चिम (d) पश्चिम

ਅਹਿਲਾਵਤ 20 ਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 34 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :

- (a) ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ (b) ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ (c) ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ (d) ਪੱਛਮ

99. How many of the following numbers are fully divisible by 132 ?

निम्नलिखित में से कितनी संख्याएँ 132 से पूरी तरह विभाज्य हैं ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 132 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

264, 396, 462, 792, 968, 2178, 5184, 6336

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) 7

$$\begin{array}{r} 132 \overline{) 6336} \quad 48 \\ \underline{528} \\ 1056 \\ \underline{1056} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 132 \overline{) 396} \quad 3 \\ \underline{396} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 132 \overline{) 792} \quad 6 \\ \underline{792} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 132 \overline{) 968} \quad 7 \\ \underline{924} \\ 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 132 \overline{) 2178} \quad 16 \\ \underline{264} \\ 1914 \\ \underline{1584} \\ 330 \\ \underline{330} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 132 \overline{) 5184} \quad 39 \\ \underline{396} \\ 1224 \\ \underline{1188} \\ 36 \end{array}$$

100. Which of the following Indian film personalities won the Oscar Award for Best Original Song for "Naatu Naatu" for the 2022 Telugu film RRR ?

(a) M. M. Keeravani

(b) A.R. Rahman

(c) Resul Pookutty

(d) Bhanu Athaiya

वर्ष 2022 की तेलुगु फिल्म "आर आर आर" के "नाटू नाटू" गाने के लिए भारतीय फिल्म के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जीता था ?

(a) एम.एम. कीरवानी

(b) ए.आर. रहमान

(c) रिज़ूल पुक्कटी

(d) भानू अथैया

2022 ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ "ਆਰਆਰਆਰ" ਲਈ "ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ" ਗਾਣੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੂਲ ਗੀਤ ਲਈ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ?

(a) ਐਮ ਐਮ ਕੀਰਵਾਨੀ

(b) ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ

(c) ਰਿਜ਼ੁਲ ਪੁਕੁਟੀ

(d) ਭਾਨੂ ਅਥਈਆ

Adda247

- o o o -

$$\begin{array}{r} 39 \\ 132 \overline{) 5184} \quad 1 \\ \underline{396} \\ 1224 \\ \underline{1188} \\ 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 132 \overline{) 2178} \quad 16 \\ \underline{264} \\ 1914 \\ \underline{1584} \\ 330 \\ \underline{330} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 132 \overline{) 968} \quad 7 \\ \underline{924} \\ 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 132 \overline{) 462} \quad 3 \\ \underline{396} \\ 66 \end{array}$$